

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 336]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 29 जुलाई 2024 — श्रावण 7, शक 1946

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-80/2024/18.— छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत रोहांसी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है:-

1. रोहांसी नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
01	महात्मा गांधी वार्ड
02	जवाहर लाल नेहरू वार्ड
03	अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड
04	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
05	सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
06	सरदार भगत सिंह वार्ड
07	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
08	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
09	बालगंगाधर तिलक वार्ड
10	डॉ भीमराव अंबेडकर वार्ड
11	मिनीमाता वार्ड
12	दीन दयाल उपाध्याय वार्ड
13	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड
14	विवेकानंद वार्ड
15	शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड

नगर पंचायत रोहांसी के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक – 01 महात्मा गांधी वार्ड

- उत्तर :— सुरजौतिन के मकान से घोंघी डबरी होते हुए लरिया रोड हेमंत कनौजे के मकान तक।
- पूर्व :— हेमंत कनौजे के मकान से लरिया से छत्तर खिलेन्द्र के मकान होते हुए रामकुमार के मकान तक।
- दक्षिण :— रामकुमार के मकान से रंगमंच हनुमान मंदिर होते हुए जिरजोधन के मकान तक।
- पश्चिम :— जिरजोधन के मकान से नहर होते हुए सुरजौतिन के मकान तक।

वार्ड क्रमांक – 02 जवाहर लाल नेहरू वार्ड

- उत्तर :— आनंद के मकान से सड़क नहर पार कर पानी टंकी होते हुए झालूराम धीवर के मकान, दर्री तालाब, शीतला चौक होते हुए डोमार साहू के मकान तक।
- पूर्व :— डोमार साहू के मकान से लखन के मकान होते हुए अभेलाल के मकान तक।
- दक्षिण :— अभेलाल के मकान से पलारी रोड नगर पंचायत भवन, खपरी रोड होते हुए नहर किनारे कार्तिक के मकान तक।
- पश्चिम :— कार्तिक के मकान से नहर होते हुए आनंद के मकान तक।

वार्ड क्रमांक – 03 अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड

- उत्तर :— पुराना हाई स्कूल होते हुए पटेल पारा से मनोज पटेल के मकान तक।
- पूर्व :— मनोज पटेल के मकान से ठाकुरदीया चौक होते हुए नरेशिया के मकान पलारी रोड तक।
- दक्षिण :— नरेशिया के मकान पलारी रोड, मंदरिया, लखन के मकान तक।
- पश्चिम :— मंदरिया, लखन के मकान से रामलाल के मकान होते हुए पुराना हाई स्कूल भवन तक।

वार्ड क्रमांक – 04 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

- उत्तर :— पार्वती के मकान से सरार होते हुए फिरंता साहू के मकान तक।
- पूर्व :— फिरंता साहू के मकान से ठेंगहादेवता, सरकारी कुआं तक।
- दक्षिण :— ठेंगहादेवता, सरकारी कुआं, घांसी के मकान होते हुए, सरार देवेन्द्र ओझा के मकान तक।
- पश्चिम :— देवेन्द्र ओझा के मकान से ठाकुरदीया चौक पार्वती के मकान तक।

वार्ड क्रमांक – 05 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड

- उत्तर :— देवक पटेल के मकान से सरार होते हुए योगेश्वर के मकान तक।
 पूर्व :— योगेश्वर के मकान से मोहन मति के मकान होते हुए तुलसी के मकान तक।
 दक्षिण :— तुलसी के मकान से आंगन बाड़ी क्र. 01 होते हुए पलारी रोड बाजार चौक तक।
 पश्चिम :— बाजार चौक पलारी रोड, मछली सोसायटी होते हुए देवक पटेल के मकान तक।

वार्ड क्रमांक – 06 सरदार भगत सिंह वार्ड

- उत्तर :— लतीक के मकान से सरकारी कुंआ, रामायण चौक होते हुए रामू साहू के घर तक।
 पूर्व :— रामू साहू के मकान से सरार होते हुए राधे ध्रुव के मकान तक।
 दक्षिण :— राधे ध्रुव के मकान से महेश के मकान तक, बाड़ा होते हुए महामाया चौक मामा भांचा मंदिर तक।
 पश्चिम :— मामा भांचा मंदिर से, शंकर रजक के मकान होते हुए लतीक के मकान तक।

वार्ड क्रमांक – 07 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

- उत्तर :— लोकनाथ के मकान से सरार होते हुए, तुका के बाड़ी होते हुए मुन्ना साहू के मकान, नीम चौक तक।
 पूर्व :— मुन्ना साहू के मकान से फेकू के मकान तक।
 दक्षिण :— फेकू के मकान से हनुमान मंदिर रामायण चौक बिसुन के मकान तक।
 पश्चिम :— बिसुन के मकान से मोहन के मकान होते हुए लोकनाथ के मकान तक।

वार्ड क्रमांक – 08 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड

- उत्तर :— नूतन के मकान से बेलाही रास्ता धनईया पांडे के मकान तक।
 पूर्व :— धनईया पांडे के मकान से खेलावन साहू के मकान होते हुए मुकुत के मकान तक।
 दक्षिण :— मुकुत के मकान से बिसहत के मकान तक।
 पश्चिम :— बिसहत के मकान से नीम चौक हनुमान मंदिर होते हुए विमल, दुखित के मकान होते हुए नूतन के मकान तक।

वार्ड क्रमांक – 09 बालगंगाधर तिलक वार्ड

- उत्तर :— पुनीत के मकान से बेलाही रास्ता होते हुए मुखीराम के मकान तक।
 पूर्व :— मुखीराम के मकान से नहर तिजऊ के मकान तक।
 दक्षिण :— तिजऊ के मकान से प्रेम साहू के मकान तक।
 पश्चिम :— प्रेम साहू के मकान से संतोष के मकान से नहर होते हुए कुलेश्वर के मकान होते हुए पुनीत के मकान तक।

वार्ड क्रमांक – 10 डॉ भीमराव अंबेडकर वार्ड

- उत्तर :— लक्ष्मीनारायण के मकान से सरार होते हुए दिलहरण के मकान तक।
 पूर्व :— दिलहरण के मकान से आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 04 शासकीय कुंआ, घासीदास चौक नया तक।
 दक्षिण :— आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 04 घासीदास चौक से शासकीय कुंआ, कमलनारायण के मकान होते हुए श्यामरतन के मकान तक।
 पश्चिम :— श्यामरतन के मकान से सरार होते हुए लक्ष्मीनारायण के मकान तक।

वार्ड क्रमांक – 11 मिनीमाता वार्ड

- उत्तर :— कृष्णकांत के मकान से घासीदास चौक पुराना नया रूपेन्द्र के मकान होते हुए सोलहा तालाब लवन रोड कार्तिक के मकान तक।
 पूर्व :— कार्तिक के मकान से बृजदास के मकान होते हुए असीमदास के मकान तक।
 दक्षिण :— असीमदास के मकान से खरतौरा रोड, एवं बृजदास के मकान होते हुए शत्रुहन के मकान तक।
 पश्चिम :— शत्रुहन के मकान से सरार होते हुए कृष्णकांत के मकान तक।

वार्ड क्रमांक – 12 दीन दयाल उपाध्याय वार्ड

- उत्तर :— रोहित के मकान से ठाकुर राम के मकान होते हुए हीराराम कनौजे के मकान तक।
 पूर्व :— हीराराम कनौज के मकान से सरार होते हुए नया तालाब जिला सहकारी बैंक होते हुए भोला ध्रुव के मकान तक।
 दक्षिण :— भोला ध्रुव के मकान से कमलेश के मकान तक।
 पश्चिम :— कमलेश के मकान से वन विभाग कार्यालय, बंधवा तालाब, बाजार चौक, महामाया चौक होते हुए रोहित के मकान तक।

वार्ड क्रमांक – 13 रानी लक्ष्मी बाई वार्ड

- उत्तर :— विनोद के मकान होते हुए लवन रोड भीमा के मकान तक।
 पूर्व :— भीमा के मकान से संतोष के मकान अमेठी रोड होते हुए पंचु के मकान तक।
 दक्षिण :— पंचु के मकान से चौगड्डा सामुदायिक भवन होते हुए भुवन के मकान तक।
 पश्चिम :— भुवन के मकान से नया तालाब होते हुए विनोद के मकान तक।

वार्ड क्रमांक – 14 विवेकानंद वार्ड

- उत्तर :— गजेन्द्र के मकान से चौगड्डा होते हुए डेरहा के मकान तक।
 पूर्व :— डेरहा के मकान से अमृत फ्यूल होते हुए ढेलु के मकान तक।
 दक्षिण :— ढेलु के मकान से खरतौरा रोड होते हुए हीराबाई के मकान होते हुए दशरथ रजक के मकान तक।
 पश्चिम :— दशरथ रजक के मकान से गजेन्द्र के मकान तक।

वार्ड क्रमांक – 15 शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड

- उत्तर :— बसंत ध्रुव के मकान से नाला रास्ता होते हुए हेम सिंह के मकान, महामाया, जगत के मकान तक।
- पूर्व :— जगत के मकान से मंदिर तालाब होते हुए समेलाल के मकान तक।
- दक्षिण :— समेलाल के मकान से सड़क होते हुए प्राथमिक शाला भवन तक।
- पश्चिम :— प्राथमिक शाला भवन, आसबाई, संतोष ध्रुव के मकान से होते हुए बसंत ध्रुव के मकान तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2024

क्रमांक एफ 1-80/2024/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-80/2024/18 दिनांक 29-07-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 29th July 2024

NOTIFICATION

No. F 1-80/2024/18.— In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the Chhattisgarh municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat, Rohasi, Distt. Baloda Bazar-Bhatapara as per Schedule given Below:-

1. Divides Rohasi Nagar Panchayat into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	Mahatma Gandhi Ward
2	Jawahar Lal Nehru Ward
3	Atal Bihari Vajpai Ward
4	Lal Bahadur Shastri Ward
5	Subhash Chandra Bose Ward
6	Sardar Bhagat Singh Ward
7	Chandrashekhar Azad Ward
8	Rabindra Nath Tagore Ward
9	Bal Gangadhar Tilak Ward
10	Dr. Bhimrao Ambedkar Ward
11	Minimata Ward
12	Deen Dayal Upadhyay Ward
13	Rani Lakshmi Bai Ward
14	Vivekananda Ward
15	Shaheed Veer Narayan Singh Ward

Descriptions of the Boundries of ward of Municipal Council Rohasi**Ward No. 1 - Mahatma Gandhi Ward**

North-	From Surjautin's house via Ghonghi Dabri to Lariya Road to Hemant Kanoje's house.
East-	From Hemant Kanoje's house from Lariya via Chhattar Khilendra's house to Ramkumar's house.
South-	From Ramkumar's house via Rangmanch Hanuman Temple to Jirjodhan's house.
West-	From Jirjodhan's house through the canal to Surjautin's house.

Ward No. 2 - Jawaharlal Nehru Ward

North-	From Anand's house, the road crossed the canal, passed through water tank, Jhaluram Dhivar's house, Darri Talab, Shitala Chowk Domar Sahu's house.
East-	From Domar Sahu's house via Lakhan's house to Abhelal's house.
South-	From Abhe Lal's house via Palari Road Nagar Panchayat building, Khapri Road to Kartik's house on the canal bank.
West-	From Karthik's house to Anand's house through the canal.

Ward No. 3 - Atal Bihari Vajpai Ward

North-	From Patel Para via old high school to Manoj Patel's house.
East-	From Manoj Patel's house via Thakurdiya Chowk to Nareshia's house on Palari Road.
South-	Nareshia's house from Palari Road, Mandriya to Lakhan's house.
West-	Mandriya, from Lakhan's house via Ramlal's house to the old high school building.

Ward No. 4 - Lal Bahadur Shastri Ward

North-	From Parvati's house via Sarar to Firanta Sahu's house.
East-	From Firanta Sahu's house to Thenghadevata, Government well.
South-	Thenghadevata, Government well, via Ghansi's house, Sarar
West-	From Devendra Ojha's house to Thakurdia Chowk Parvati's house.

Ward No. 5 - Subhash Chandra Bose Ward

North-	From Devak Patel's house to Yogeshwar's house via Sarar.
East-	From Yogeshwar's house via Mohan Mati's house to Tulsi's house.
South-	From Tulsi's house through Anganwadi No. 01 till Palari Road Bazaar Chowk.
West-	Market Chowk Palari Road, via Fish Society till Devak Patel's house.

Ward No. 6 - Sardar Bhagat Singh Ward

North-	From Latik's house to Ramu Sahu's house via government well, Ramayan Chowk..
East-	From Ramu Sahu's house via Sarar to Radhe Dhruv's house.
South-	From Radhe Dhruv's house to Mahesh's house, through the enclosure to Mahamaya Chowk Mama Bhacha Temple.
West-	From Mama Bhacha Temple, via Shankar Rajak's house to Latik's house.

Ward No. 7 - Chandrashekhar Azad Ward

North-	From Loknath's house via Sarar, via Tuka's Badi, to Munna Sahu's house, till Neem Chowk.
East-	From Munna Sahu's house to Feku's house.
South-	From Feku's house to Hanuman Mandir Ramayan Chowk Bisun's house.
West-	From Bisun's house via Mohan's house to Loknath's house.

Ward No. 8 - Rabindra Nath Tagore Ward

North-	Belahi road from Nutan's house to Dhanaiya Pandey's house.
East-	From Dhanaiya Pandey's house via Khelavan Sahu's house to Mukut's house.
South-	From Mukut's house to Bishat's house.
West-	From Bishat's house via Neem Chowk Hanuman Temple to Vimal, Dukhit's houses Via till Nutan's house

Ward No. 9 - Bal Gangadhar Tilak Ward

North-	From Puneet's house to Mukhiram's house via Belahi road.
East-	From Mukhiram's house to Nahar Tijau's house.
South-	From Tijau's house to Prem Sahu's house.
West-	From Prem Sahu's house to Santosh's house via the canal via Kuleshwar's house to Puneet's house.

Ward No. 10 - Dr. Bhimrao Ambedkar Ward

North-	From Laxminarayan's house via Sarar to Dilharan's house.
East-	From Dilharan's house to Anganwadi Centre No. 04 Government Well, Ghasidas Chowk Naya.
South-	From Anganwadi Centre No. 04 Ghasidas Chowk to Government Well, via Kamalnarayan's house to Shyamratan's house.
West-	From Shyamratan's house via Sarar to Laxminarayan's house

Ward No. 11 - Minimata Ward

North-	From Krishnakant's house via Ghasidas Chowk Purana, Naya Rupendra's house to Solaha Talab Lavan Road to Kartik's house.
East-	From Kartik's house via Brijdas's house to Asimdas's house
South-	From Asimdas's house to Kharatora Road, and via Brijdas's house to Shatruhan's house.
West-	From Shatruhan's house to Krishnakant's house via Sarar.

Ward No. 12 - Deen Dayal Upadhyay Ward

North-	From Rohit's house via Thakur Ram's house to Hiramam Kanoje's house.
East-	From Hiramam Kanauj's house via Sarar via Naya Talab District Cooperative Bank to Bhola Dhruv's house.
South-	From Bhola Dhruv's house to Kamlesh's house.
West-	From Kamlesh's house via Forest Department Office, Bandhava Talab, Bazaar Chowk, Mahamaya Chowk to Rohit's house.

Ward No. 13 - Rani Lakshmi Bai Ward

North-	Via Vinod's house via Lavan Road to Bhima's house.
East-	From Bhima's house via Santosh's house via Amethi Road to Panchu's house.
South-	From Panchu's house to Bhuvan's house via Chaggada Community Hall.
West-	From Bhuvan's house via Naya Talab to Vinod's house.

Ward No. 14 - Vivekananda Ward

North-	From Gajendra's house to Derha's house via Chaugadda.
East-	From Derha's house to Dhellu's house via Amrit Fuel.
South-	From Dhellu's house via Khartora Road to Dashrath Rajak's house via Heerabai's house.
West-	From Dasharatha Rajak's house to Gajendra's house

Ward No. 15 - Sahid Veer Narayan Singh Ward

North-	From Basant Dhruv's house via the drain path to Hem Singh's house, Mahamaya, Jagat's house.
East-	From Jagat's house via the temple pond to Samelal's house.
South-	From Samelal's house via the road to the primary school building.
West-	From the primary school building, Aasbai, Santosh Dhruv's house to Basant Dhruv's house.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DR. RENUKA SHRIVASTAVA, Joint Secretary.